

## पठित गद्यांश

प्रश्न - १ अधोलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो :-

तीन भाई थे | एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े | गरम - गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए | थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया | उसके नीचे ठंडी छाँह थी | तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे | पेड़ के आम तोड़ - तोड़कर वे मीठा - मीठा रस चूसने लगे | बड़े भाई ने कहा - भाई मुझे तो यही जगह पसंद है | आम कच्चे होंगे , तो हम अचार बनाएँगे और जब वे पक जाएँगे तो मीठे-मीठे फल खाएँगे |

१. कितने भाई थे ?

-----

२ . वे किसकी तलाश में निकल पड़े ?

-----

३ . गरम - गरम धूप में वे कहाँ गए ?

-----

४ . थोड़ी देर में किसका पेड़ आया ?

-----

५. पेड़ के नीचे क्या था ?

-----

६. तीनों भाई पेड़ के नीचे क्या करने लगे ?

-----

७ . कच्चे आम से क्या बनता है ?

-----

८ . अनुच्छेद में आए दो पुनरुक्त शब्द लिखो :-

१.....

२ .....

९ वचन बदलो :- घर - .....

कच्चा - .....

१०. विलोम शब्द लिखो :-छोटा : -----

कड़वा : .....

## अपठित –गद्यांश

प्रश्न – २ अधोलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो :-

तोता एक जंगली पक्षी है | लोग इसको पकड़कर पालतू बना लेते हैं | इसका रंग हरा होता है | इसकी चोंच का रंग लाल होता है | चोंच आगे से मुड़ी हुई होती है | तोते की गर्दन पर एक काली सी घाटी होती है जिसे कंठी भी कहते हैं | इसकी आवाज़ मीठी और सुरीली होती है | तोता वृक्षों की कोट में रहता है | तोता फल और हरी मिर्च शौक से खाता है | लोग इसे प्यार से मिठू बुलाते हैं |

(१) तोता कैसा पक्षी है ?

.....

(२) लोग तोते का क्या करते हैं ?

-----

(३) तोते का रंग कैसा होता है ?

-----

(४) तोते की चोंच का रंग कैसा होता है ?

-----

(५) चोंच आगे से कैसी होती है ?

-----

(६) तोते की गर्दन पर जो काली घाटी होती है उसे क्या कहते हैं ?

-----

(७) तोते की आवाज़ कैसी होती है ?

-----

(८) तोता कहाँ रहता है ?

.....

(९) तोता शौक से क्या खाता है ?

-----

(१०) तोते को प्यार से लोग क्या कहकर बुलाते हैं ?

-----

## प्रश्नोत्तर

- 1) कक्कू को किन किन नामों से पुकारा जाता था ?
  - 2) शेर ने किसान से क्या कहा ?
  - 3) किसान की बीवी का क्या नाम था ?
  - 4) शेर के अलावा रास्ते में मक्खी को और कौन-कौन मिला ?
  - 5) तुम्हारा मन क्या-क्या बनने को करता है ?
  - 6) आदमी ने सबसे पहले धान का पौधा कहा देखा ?
  - 7) आदमी ने मूस से क्या-क्या कहा ?
  - 8) शेर ने किसान से क्या कहा
  - 9) खूंटे से बांधे जाने वाले दो जानवरों के नाम लिखो ?
  - 10) शेर किसान के पास कितनी बार गया था ?
  - 11) बूढ़ी अम्मा क्या-क्या काम करती थी ?
  - 12) 'मन करता कविता में बच्चे का मन क्या-क्या बनने को करता है ?
- 

## व्याकरण

### 1. नाम वाले शब्दों को घेरा लगाओ :-

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है ।

राम चेन्नई में रहता है ।

उसने कल आम खाया था ।

नेहा ने आगरा में ताजमहल देखा ।

राम और श्याम कल जयपुर जाएंगे ।

### 2. दाईं ओर दिए गए शब्दों से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो :-

सोहन और जय ..... मित्र है । (पक्के ,पक्का)

मोहन .....आदमी है । (अच्छे ,अच्छा )

वह खाना ..... रहा है । (खाता , खा )

रात के समय .....रहता हैं । (अँधेरा .अँधेरे )

वह ..... रहा है । (खेलने , खेल )

3. उचित काम वाले शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो :-

सीता रस्सी ..... रही है | (कूद ,कूदना )

वे मैदान में .....रहे है | (दौडाते ,दौड़ )

छोटा बच्चा ..... रहा है | ( रो ,रोना )

संजय खाना ..... रहा है | (खा , खाते )

वह धीरे -धीरे ..... रहा है | (चल ,चलने)

4. एक से अनेक बनाओ :-

जैसे:- तितली - तितलियाँ

मकड़ी - ..... खिड़की - .....

लोमड़ी -..... लकड़ी -.....

5. समान अर्थ वाले शब्द लिखो |

जैसे:- आसमान - आकाश

पृथ्वी - ..... वृक्ष - .....

पानी -..... हाथी -.....

6. नीचे लिखे शब्दों के रूप बदलो |

जैसे:- लड़का - लड़की

आदमी - ..... बैल - .....

नर - ..... घोडा -.....

7. नीचे लिखे शब्दों के विपरीत रूप बदलो ।

जैसे:- कठोर - नरम

अन्दर - ..... सोना - .....

नीचे - ..... दिन - .....

8. नीचे दिया गए शब्दों का उपयोग करके एक वाक्य बनाओ ।

कठिन :- \_\_\_\_\_

राजा - \_\_\_\_\_

मूसलाधार - .....

विद्यालय - .....

9. समान तुक वाला शब्द लिखो :-

पाना - ..... होते - .....

सोता - ..... मोटा - .....

10. नाम वाले शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को घेरा लगाओ :-

1. गुलाबी पगड़ी

2. लाल फूल

3. चालाक लोमड़ी

4. नुकीला चाकू

## सृजनात्मक लेखन

1. बारिश के बारे में अपने शब्दों में लिखो ?
2. किसी एक पालतू जानवर के बारे में अपने शब्दों में लिखो ?
3. किसी एक प्रिय त्योहार के बारे में अपने शब्दों में लिखो ?
4. तुम्हारा मन तुम्हें क्या-क्या करने को कहता है ? अपने शब्दों में लिखो ।

## वर्तनी

सही वर्तनी पर गोला लगाओ -

शैतानी / शोतानी

रस्साकशी / रस्साकसी

कठिन / कटिन

प्रणाम / परणाम

सीताफल / सीतफल

प्रवेश  प्रवेश

इमान्दारी / ईमानदारी

परसन  प्रसन्न

यमुना / यामूना

विश्वास / विशवास

किस्सान / किसान

डॉक्टर / डाक्टर

बारिश / बारीश

डॉक्टर / डाक्टर

## सुलेख

हमें सदा समय का पालन करना चाहिए । हम खोया हुआ धन तो प्राप्त कर सकते हैं । मगर बीत गया समय कभी लौटकर नहीं आता है । अनुशासन में रहना है तो समय का पालन करना अनिवार्य है । सभी कामों को समय के अनुसार करना चाहिए ।

---

---

---

---